

प्रमाणित किया जाता है कि इस मापी पुस्त
मे मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ
पन्ने है यह मापी पुस्त श्री...रं. प्र. 4. 34/1...
सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल...कलुआही...को निर्गत
किया जाता है:

18/06/21
कार्यालय अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, मधवनी

18/06/21

Re-issue to Sri Arun Kumar Das,
JE (Contract), Kaluwa-2

21.06.21

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल कलुआही
मधवनी

Sch. XLV - Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2578

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work—
 Situation of Work—
 Agency by which work is executed—
 Date of Measurement—
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
CH - MR 3054.					
Name of work -					
Motability of					
Road from					
Maitol To Kaluah					
under FDR for					
Year 2021.					
Agency - Dept.					

Authority. E.E'					
R.W.D. Madhubani					
CH 300m to 500m.					
1x 2.00x 1.75x 0.20					$= 0.70 \text{ m}^3$
1x 2.50x 2.5x 0.15					$= 0.94 \text{ m}^3$
1x 0.50x 1.00x 0.25					$= 0.125 \text{ m}^3$
1x 4.00x 2.00x 0.15					$= 1.20 \text{ m}^3$
1x 20x 2.35x 2.65					$= 12.50 \text{ m}^3$
1x 2.25x 3.50x 0.15					$= 1.18 \text{ m}^3$
1x 1.50x 1.00x 0.20					$= 0.30 \text{ m}^3$
1x 2.50x 3.50x 0.20					$= 1.75$
			C.O.		18.69 m^3

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
			B.F.		18.69M ³
	1X	1.0X	0.50	0.20	= 0.10M ³
	1X	3.0X	1.00	0.20	= 0.60M ³
	1X	1.0X	3.50	0.25	= 1.31M ³
	1X	14.50X	$\frac{1.5+1.5}{2}$	0.20	= 4.49M ³
	1X	7.20X	$\frac{2.1+0.5}{3}$	0.25	= 2.099M ³
	1X	6.0X	3.0	0.25	= 4.50M ³
	Ch	500M	1000M		
	1X	8.0X	$\frac{1.5+2.1}{3}$	0.25	= 3.00M ³
	1X	4X	$\frac{0.5+1.0}{3}$	0.20	= 0.530M ³
	1X	1.5X	3X	0.20	= 0.90M ³
	1X	1X	1X	0.15	= 0.15M ³
	1X	1X	3X	0.25	= 0.75M ³
	1X	1X			
	1X	1X	0.80	0.25	= 0.40M ³
	1X	1.25X	2.0X	0.225	= 0.56M ³
	1X	3X	1.50	0.225	= 1.01M ³
	1X	4X	2X	0.150	= 1.20M ³
	1X	4X	2.5X	0.175	= 1.75M ³
	1X	2.5X	3X	0.21	= 1.50M ³
	1X	9.5X	$\frac{2.1+1.5}{2}$	0.55	= 2.13M ³
	1X	6.50X	1.0	0.15	= 0.970M ³
	1X	11.00X	$\frac{1.5+2.5+1.25}{2}$		
				0.225	= 4.330M ³
	1X	0.50X	0.50	0.225	= 0.05M ³
	1X	2.50X	3.25	0.25	= 2.03M ³
	1X	3X	0.6X	0.25	= 0.450M ³
		C.O.			53.55M ³

Continuation

20-12-21
Jc

CH - MR 3054

Name of Road

Moderability of

Road damaged by

Fixed 5m

MALTOSE TO KALNAH

for year 2021

Agency	Depth
--------	-------

Auth - E. E. R. W.

Madhambam

Learning Road

1:17 AM.

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Item ① Providing and filling brick bats in ditches including cost of brick bats and labours all completion as per specification & direction of Eng. S. V. Vile T. M. R. Page 3 55.140 m ³					

@ 2004-96 Rs 110553.00
 Add 12% h.s.t. Rs 13266.00
 Add 1% Labours Rs 1105.00
 Add 10% S.G. fee Rs 5690.00
 Rs 130614.00

1 Rupees one Lakh
 Thirty Thousand Six
 Hundred fourteen only.

For
 20.12.28
 J.V.

For
 20.12.28
 P.E.

For
 20.12.28
 J.V.

Continuation